



उज्ज्वल भविष्य के लिए वित्त-पोषण

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड


नवरत्न पीएसयू

कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं
(एकल, अन-अंकेक्षित)

समाप्त तिमाही
30 सितंबर, 2017

- इस प्रस्तुति में ऐसे बयान शामिल हो सकते हैं जो प्रबंधन के वर्तमान विचारों और अनुमानों को प्रतिबिंबित करते हैं और इन्हें आगे दिखने वाले कथन के रूप में समझा जा सकता है। भविष्य में ऐसी अनिश्चितताएं और जोखिम शामिल होते हैं जो वास्तविक परिणामों को भौतिक रूप से अलग-अलग दर्शाने वाले वर्तमान विचारों से भिन्न कर सकते हैं। संभावित अनिश्चितताओं और जोखिमों में सामान्य आर्थिक स्थितियों, मुद्रा में उतार-चढ़ाव, प्रतिस्पर्धी उत्पाद और मूल्य निर्धारण के दबाव, औद्योगिक संबंध और विनियामक विकास जैसे कारक शामिल हैं।
- आंकड़े पुनर्मूल्यांकित की गई है/ उन्हें तुलनीय बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया।
- 'विश्लेषणात्मक डेटा' व्यवसाय की समझ की सुविधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुमान हैं और रिपोर्ट किए गए आंकड़ों का समाधान नहीं किया जाएगा।
- उत्तर केवल गैर-मूल्य संवेदनशील प्रश्नों के लिए दिए जाएंगे।

छमाही1 वि.व.18 बनाम छमाही 1 वि.व. 17



ति2 वित्त वर्ष18 बनाम ति1 वित्त वर्ष18



स्नैपशॉट- 30.09.2017 तक

(राशि-करोड़ रुपए में.)

लाभ एवं हानि- मुख्य विशेषताएं	छ.1'18	Q2'18
पीएटी	3,315	1,887
ब्याज आय	13,881	6,984
ब्याज व्यय	8,396	4,263
निवल ब्याज आय	5,485	2,721
निवल ब्याज मार्जिन	4.31%	4.19%
निधि की लागत	8.27%	8.23%
ब्याज वृद्धि	2.64%	2.52%

तुलन- पत्र - मुख्य विशेषताएं	30.09.2017 तक
ति1'18 से सकल एनपीए में वृद्धि	(9,996)
कुल निवल एनपीए	16,970
निवल एनपीए (निवल ऋण परिसंपत्तियों का %)	6.69%
ति1'18 से पुनर्संचित ऋण परिसंपत्ति संवर्द्धन	शून्य
उन्नयन - एनपीए को पुनर्संचित मानक - (ए)	5,591
पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति (उपरोक्त (ए) को छोड़कर)	53,392
पुनर्गठित ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान	3,239
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	19.90%
का टीयर I	16.90%
का टीयरII	3.00%

वित्तीय कार्य-निष्पादन



राजस्व एवं लाभ वृद्धि

(रूपए करोड़ में)

	तिमाही 2 वित्त वर्ष 18	तिमाही1 वित्त वर्ष 18	तिमाही2 वित्त वर्ष 17	H1 वित्त वर्ष 18	H1 वित्त वर्ष 17	वित्त वर्ष 17
ब्याज आय	6,984	6,897	6,968	13,881	14,120	26,688
ब्याज व्यय	(4,263)	(4,133)	(4,052)	(8,396)	(8,221)	(16,326)
शुद्ध ब्याज आय	2,721	2,764	2,916	5,485	5,899	10,362
प्रचालनगत आय	(56)	(204)	(42)	(260)	(244)	(354)
प्रावधान*	(122)	(413)	(301)	(535)	(475)	(5,094)
कर पूर्व लाभ एवं आसधारण मदें	2,568	2,156	2,598	4,724	5,212	5,043
कर प्रावधान	(722)	(737)	(791)	(1,459)	(1,453)	(3,074)
डीटीएल(-) /डीटीए (+)	(7)	13	1	5	(115)	91
कर पश्चात लाभ	1,887	1,429	1,873	3,315	3,586	2,126

* मानक परिसंपत्तियों, पुनर्गठन मानक परिसंपत्तियों, एनपीए परिसंपत्तियों और निवेश के मूल्य में गिरावट के प्रावधान शामिल हैं।

मुख्य अनुपात

	ति.2 वि. व.18	ति.1 वि व 18	Q2 वि.व. 17	छ.1 वि. व. 18	छ.1 वि. व. 17	वि. व.17
परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	10.75%	11.07%	11.75%	10.91%	11.84%	11.14%
निधियों की लागत	8.23%	8.31%	8.44%	8.27%	8.45%	8.41%
ब्याज प्रसार	2.52%	2.76%	3.31%	2.64%	3.39%	2.73%
निवल ब्याज अंतर	4.19%	4.44%	4.92%	4.31%	4.95%	4.33%

पी एवं एल केवल मुख्य मदों को दर्शाता है। अतः रिपोर्टेड आंकड़ों के साथ कुल आंकड़ों का समाधान नहीं किया जा सकता। अनुपात वार्षिक एवं दैनिक औसत के आधार पर हैं तथा इसमें विनिमय/हानि वृद्धि शामिल नहीं हैं।



तुलन-पत्र वृद्धि

(रूपए करोड़ में)

	छ.1 वि.व. 18	छ.1 वि.व.17	वि.व.17
परिसंपत्ति	2,68,272	2,45,491	2,58,344
ऋण परिसंपत्ति (निवल)	2,53,518	2,34,186	2,40,169
निवेश	3,550	3,337	3,591
निर्धारित एवं अन्य परिसंपत्ति	11,205	7,969	14,583
देयताएं	2,68,272	2,45,491	2,58,344
शेयरधारक निधियां	39,855	39,275	36,470
ऋण	2,08,985	1,94,697	2,02,588
प्रावधान (एनपीए के लिए अन्य)*	4,853	2,341	4,472
अन्य देयताएं एवं डीटीएल	14,580	9,179	14,813

* पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों एवं मुख्य रूप से मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान शामिल है

मुख्य अनुपात

	ति2 वि.व. 18	ति2 वि.व.17	छ.1 वि.व.18	छ.1 वि.व. 17	वि.व. 17
निवल आय (शेयर पूंजी + सभी आरक्षित)	39,855	39,275	39,855	39,275	36,470
औसत निवल आय पर विवरणी	19.39%	19.61%	17.37%	19.11%	5.89%
औसत परिसंपत्तियों पर विवरणी	2.85%	3.06%	2.52%	2.91%	0.84%
ऋण इक्विटी अनुपात	5.24	4.96	5.24	4.96	5.55
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	19.90%	21.77%	19.90%	21.77%	19.28%
ईपीएस* (सितंबर 16 में 1:1 के बोनस शेयर पर विचार करने के पश्चात)	Rs.28.58	Rs.28.38	Rs.25.11	Rs.27.17	Rs.8.05
प्रति शेयर बही मूल्य (सितंबर 16 में 1:1 के बोनस शेयर पर विचार करने के पश्चात)	Rs.150.96	Rs.148.76	Rs.150.96	Rs.148.76	Rs.138.14

* अनुपात वार्षिक आधार पर हैं। बी/एस केवल मुख्य मदों को दर्शाते हैं। अतः रिपोर्टेड आंकड़ों से कुल आंकड़ों का समाधान नहीं किया जा सका।

परिचालन निष्पादन

	ति2 वि.व. 18		ति2 वि.व.17		छ1 वि.व. 18		छ1 वि.व.17		वि.व. 17	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संस्वीकृतियां	13,047	100%	36,592	100%	62,686	100%	71,205	100%	100,603	100%

विषय -वार

उत्पादन	2,807	22%	28,213	77%	41,126	66%	56,143	79%	41,794	42%
पारेषण	2,457	19%	1,525	4%	3,542	6%	1,955	3%	16,666	17%
संवितरण	1,217	9%	1,166	3%	5,317	8%	1,205	2%	5,697	6%
अन्य	6,566	50%	5,688	16%	12,701	20%	11,902	17%	36,446	36%

ऋणकर्ता-वार

राज्य क्षेत्र	11,466	88%	11,848	32%	42,480	68%	43,747	61%	82,263	82%
केन्द्रीय क्षेत्र	0	0%	2,519	7%	0	0%	4,118	6%	4,118	4%
संयुक्त क्षेत्र	305	2%	18,833	51%	16,306	26%	18,932	27%	2,760	3%
निजी क्षेत्र	1,276	10%	3,392	9%	3,901	6%	4,408	6%	11,462	11%

आर-एपीडीआरपी /आईपीडीएस

	576	100%	1,622	100%	676	100%	3,196	100%	3,045	100%
आर-एपीडीआरपी (भाग क)	0	0%	28	2%	0	0%	28	1%	28	1%
आर-एपीडीआरपी (भाग ख)	0	0%	335	21%	0	0%	335	10%	-	-
आईपीडीएस	576	100%	1,259	78%	676	100%	2,833	89%	3,018	99%

संस्वीकृतियां – दिनांक 30.09.2017 तक बकाया संस्वीकृतियां



(रुपए करोड़ में)

विवरण	जहां बकाया संस्वीकृतियाँ हैं			कुल संस्वीकृतियां बकाया
	दस्तावेज़ निष्पादित हैं तथा संवितरण शुरू हैं	दस्तावेज़ निष्पादित हैं किंतु संवितरण शुरू नहीं हुआ	दस्तावेज़ निष्पादित नहीं किया गया	
बकाया संस्वीकृतियां	73,060	45,885	45,285	1,64,230

विषय-वार

उत्पादन	51,281	35,374	19,885	1,06,541
पारेषण	14,053	4,739	14,011	32,802
संवितरण	5,677	1,529	9,247	16,453
अन्य	2,048	4,243	2,143	8,434

ऋणकर्ता-वार

राज्य क्षेत्र	54,805	32,631	29,109	1,16,545
केन्द्रीय क्षेत्र	2,312	-	-	2,312
संयुक्त क्षेत्र	3,429	918	10,898	15,245
निजी क्षेत्र	12,514	12,336	5,279	30,128

	ति2 वि.व. 18		ति2 वि.व. 17		छ1 वि.व.18		छ1 वि.व. 17		वि.व. 17	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संवितरण	13,820	100%	14,510	100%	26,669	100%	22,265	100%	62,798	100%

विषय-वार

उत्पादन	7,887	57%	8,596	59%	13,737	52%	11,819	53%	25,767	41%
पारेषण	613	4%	944	7%	1,360	5%	1,609	7%	3,605	6%
संवितरण	511	4%	321	2%	714	3%	495	2%	1,580	3%
अन्य	4,809	35%	4,649	32%	10,858	41%	8,342	37%	31,846	51%

ऋणकर्ता-वार

राज्य क्षेत्र	7,878	57%	7,424	51%	17,591	66%	13,347	60%	45,757	73%
केन्द्रीय क्षेत्र	200	1%	2,530	17%	484	2%	2,898	13%	4,659	7%
संयुक्त क्षेत्र	3,929	28%	3,372	23%	4,233	16%	3,693	17%	4,730	8%
निजी क्षेत्र	1,812	13%	1,184	8%	4,361	16%	2,327	10%	7,652	12%

आर-एपीडीआरपी/
आईपीडीएस

	934	100%	912	100%	1,657	100%	1,570	100%	3,914	100%
आर-एपीडीआरपी (भाग क)	52	6%	80	9%	96	6%	240	15%	655	17%
आर-एपीडीआरपी (भाग ख)	112	12%	46	5%	120	7%	365	23%	926	24%
आईपीडीएस	769	82%	786	86%	1,440	87%	965	61%	2,333	60%

तक	30.09.2017		30.09.2016		31.03.2017	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%
सकल ऋण परिसंपत्ति	2,58,050	100%	2,36,065	100%	245,525	100%

विषय-वार

उत्पादन	1,87,832	73%	1,79,110	76%	1,83,379	75%
पारेषण	17,206	7%	15,624	7%	16,607	7%
संवितरण	6,702	3%	6,689	3%	6,443	3%
अन्य	46,310	18%	34,642	15%	39,095	16%

ऋणकर्ता- वार

राज्य क्षेत्र	1,70,780	66%	1,55,137	66%	161,137	66%
केन्द्रीय क्षेत्र	21,695	8%	22,366	9%	22,931	9%
संयुक्त क्षेत्र	23,070	9%	18,872	8%	19,378	8%
निजी क्षेत्र	42,505	16%	39,689	17%	42,079	17%

□ ति 3 में अनुमानित विकास

- जे एंड के एसपीडीसीएल (राज्य) को 1.60 करोड़ रुपए (लगभग) का ऋण अक्टूबर में पूरा भुगतान कर दिए जाने के कारण एनपीए श्रेणी से हट जाएगा।
- ति3 में अनुमानित उन्नयन
 - एनपीए से पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन – छत्तीसगढ़ पीजीसीएल (राज्य) को 7000 करोड़ रुपए (लाभग) का ऋण
 - पुनर्गठित मानक श्रेणी से मानक श्रेणी – मोजर बेयर ग्रुप के एमबी पावर (प्राइवेट) को 1300 करोड़ रुपए (लगभग) का ऋण

□ ति2'18 में विकास

- पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों की स्थिति
 - ति2 वि।व.18 में जुड़े नए ऋण – एनपीए से पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन हुए 5591 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियों के बजाय शून्य
 - ऋण का पूरा भुगतान कर दिए जाने पर पुनर्गठित मानक श्रेणी से हट जाना – राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड – रामगढ़ गैस परियोजना को 217 करोड़ रुपए का
- एनपीए की स्थिति
 - ति1'18 से 32% तक एनपीए परिसंपत्तियों में कमी - 31,498 करोड़ रुपए से 21,503 करोड़ रुपए
 - एनपीए से उन्नयन- एमपी जेनको को 10,991 करोड़ रुपए के ऋण। इसमें से:
 - ✓ एनपीए से मानक श्रेणी में उन्नयन - 5,400 करोड़ रुपए
 - ✓ एनपीए से पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन - 5591 करोड़ रुपए तथा उस पर आरबीआई मानदंडों के अनुसार 5% का पुनर्गठित परिसंपत्तियों का प्रावधान किया जा रहा है।
 - ति2 में एनपीए के लिए प्रमुख परिशिष्ट
 - ✓ ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड --1193.05 करोड़ रुपए

➤ मानक एवं पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान

- आरबीआई मानदंडों के अनुसार, दिनांक 31.03.2018 तक मानक परिसंपत्तियों का 0.40% प्रावधान तथा पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों का 5% प्रावधान किया जाना है। ति2'18 में ही उक्त प्रावधान किया जा चुका है।

➤ एस4ए योजना के अंतर्गत प्रावधान

- एस4ए 2 ऋणों में लागू होता है और तदनुसार, ऐसे ऋणों पर 10% का प्रावधान किया गया है।

➤ प्रावधान – आरकेएम ऋण

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से अंत कालीन स्टे रहने के कारण आरकेएम पावर जनरल लोन वर्तमान में एक मानक परिसंपत्ति है।
- पृडेंस का मामला होने पर, ति2 में 311.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ऋण गुणवत्ता एवं प्रावधान - एनपीए स्थिति



(रूपए करोड़ में)

	30.09.2017		30.06.2017		30.09.2016		31.03.2017	
	राशि	ऋण परिसंपत्ति यों का प्रतिशत	राशि	ऋण परिसंपत्ति यों का प्रतिशत	राशि	ऋण परिसंपत्ति यों का प्रतिशत	राशि	ऋण परिसंपत्ति यों का प्रतिशत
सकल एनपीए	21,503	8.33%	31,498	12.46%	7,585	3.21%	30,702	12.50%
क) राज्य क्षेत्र	13,037	5.05%	24,084	9.53%	819	0.35%	24,031	9.79%
ख) निजी क्षेत्र	8,466	3.28%	7,414	2.93%	6,766	2.87%	6,671	2.72%
एनपीए प्रावधान	4,533	1.76%	5,607	2.22%	1,879	0.80%	5,356	2.18%
क) राज्य क्षेत्र	1,516	0.59%	2,623	1.04%	154	0.07%	2,617	1.07%
ख) निजी क्षेत्र	3,017	1.17%	2,984	1.18%	1,725	0.73%	2,739	1.12%
निवल एनपीए	16,970	6.69%	25,892	10.48%	5,706	2.44%	25,346	10.55%

8,466 करोड़ रूपए निजी क्षेत्र एनपीए परिसंपत्तियों के बावजूद 36% एनपीए प्रावधान (3,017 करोड़ रूपए) की गई है

एनपीए- ऋण परिसंपत्तियों के रूप में (सरकार पर विचार किए बिना जिन्हें नियमित रूप से सेवित किया जा रहा है लेकिन आरबीआई के नियमों के तहत पुनर्गठन के कारण एनपीए को डाउनग्रेड किया गया है)

सकल एनपीए	3.41%	3.07%	3.21%	3.01%
निवल एनपीए	2.17%	1.81%	2.44%	1.68%

ऋण गुणवत्ता एवं प्रावधान - पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्ति



(रुपए करोड़ में)

विवरण	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016*	31.03.2017
पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति	58,982	54,595	29,898	55,441
राज्य क्षेत्र #	41,821	36,505	8,453	35,995
निजी क्षेत्र	17,161	18,090	21,444	19,446
पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्तियों पर प्रावधान	3,239	2,451	1,159	2,356
राज्य क्षेत्र	2,091	1,620	328	1,530
निजी क्षेत्र	1,148	831	831	826

जिसमे 5,591 करोड़ रुपए की ऋण राशि शामिल है, जो एनपीए श्रेणी से पुनर्गठित मानक श्रेणी में अपग्रेड हो गई है।

* पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रुडेंशियल मानदंडों का पालन कर रहा है। तिमाही4-वि.व.17 में, तदनुसार, पीएफसी ने आरबीआई प्रुडेंशियल के समकक्ष प्रावधान किया है)

ऋण गुणवत्ता एवं प्रावधान – प्रावधान की स्थिति



(रुपए करोड़ में)

विवरण	परिसंपत्ति (30.09.2017 तक)	30.09.2017	30.06.2017	30.09.2016	31.03.2017
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1,77,565	1,007	604	645	558
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	58,982	3,239	2,451	1,159	2,356
एनपीए के लिए प्रावधान	21,503	4,533	5,607	1,879	5,356
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण(आरबीडीडी) के लिए आरक्षित	-	3,236	3,127	2,768	3,015
कुल	2,58,050	12,015	11,789	6,451	11,285

ऋण	30.09.2017		30.09.2016		31.03.2017	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%
बॉण्ड्स	185,493	89%	1,78,984	92%	190,911	94%
सावधि ऋण	7,311	3%	9,507	5%	9,277	5%
अल्पावधि ऋण	16,181	8%	6,206	3%	2,401	1%
कुल	208,985	100%	1,94,697	100%	202,588	100%
जिसमे से :						
रुपए मूल्य-वर्ग	201,674	97%	1,83,980	94%	194,144	96%
विदेशी मुद्रा ऋण	7,311	3%	10,717	6%	8,444	4%

(होल्डिंग %)

विवरण	30.09.2017	30.09.2016	31.03.2017
भारत के राष्ट्रपति	66.35%	67.80%	66.35%
एफआईआई और एफपीआई	15.41%	13.23%	15.51%
भारतीय वित्तीय संस्थाएं और बैंक	8.23%	12.73%	9.51%
निकाय कॉर्पोरेट	1.40%	1.23%	1.44%
आवासीय व्यक्ति	3.56%	2.92%	3.19%
म्यूचुअल फंड्स	4.33%	1.47%	3.25%
कार्मिक	0.05%	0.06%	0.06%
अन्य	0.68%	0.56%	0.70%
कुल	100%	100%	100%

क्र.सं.	10 प्रमुख शेयरधारक (30.09.2017 तक)	होल्डिंग (%)	श्रेणी
1	भारत के राष्ट्रपति	66.35	पीओआई
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	7.24	आईएनएस
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी प्रूडेंस फंड	1.22	एमयूटी
4	सीपीएसई ईटीएफ	0.81	एमयूटी
5	मॉर्गन स्टेनली मॉरीशस कंपनी लिमिटेड	0.70	एफपीआई
6	यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लि.	0.64	एफपीआई
7	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - ए/सी एचडीएफसी मिड - कैप ऑपचर्यूनिटीज फंड	0.60	एमयूटी
8	एक्यूआर इमर्जिंग इक्विटीज फंड, एल.पी.	0.46	एफपीआई
9	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एचडीएफसी टॉप 200 फंड	0.45	एमयूटी
10	वेनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड	0.44	एफपीआई

निवेशक संबंध सेल

पीएफसी का उद्देश्य मौजूदा और संभावित निवेशकों से जुड़ना और निवेश समुदाय के साथ एक मजबूत और स्थायी सकारात्मक संबंध बनाना है. इसके लिए, कंपनियों के प्रदर्शन पर निवेशकों को जानकारी प्रदान करने के लिए पीएफसी का एक समर्पित निवेशक संबंध सेल है।

कृपया पीएफसी के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित प्रश्नों के लिए, निम्नलिखित पते पर निवेशक संबंध सेल से संपर्क करें :

श्री बी.एस. बिष्ट

(महाप्रबंधक)

टेलीफोन नं.: +91-11- 23456846

फ़ैक्स नं.: +91-11- 23456882

ईमेल: investorrelations@pfcindia.com

सुश्री जसनीत गुरम

(उप महाप्रबंधक)

टेलीफोन नं : +91-11- 23456823

फ़ैक्स नं.: +91-11- 23456882

ईमेल : investorrelations@pfcindia.com

धन्यवाद